

13th November, 2020

To, The Listing Department, BSE Limited, PhirozeJeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 (Scrip Code: 539946)

To, The Executive Director, The Calcutta Stock Exchange Limited, 7, Lyons Range, Kolkata- 700 001 (Scrip Code: 12149)

Subject:<u>Newspaper Clippings of the Unaudited Financial Results for the Quarter and half- year</u> ended 30thSeptember, 2020

Dear Sir/Ma'am,

With reference to the captioned subject, we enclose herewith the newspaper clippings of the Unaudited Financial Results for the quarter and half- year ended 30thSeptember, 2020 published by the Company in the newspapers named as "Financial Express" (English language) and "Jansatta" (Hindi language) dated 12th November, 2020.

This is for your information and records.

Thanking You,

For Bazel International Limited

auti

Preeti Puri Company Secretary and Compliance Officer Membership No.:A53835 Address: D-50E, Second Floor, Chattarpur Enclave, New Delhi-110 074

Encl: As mentioned above

38

FINANCIAL EXPRESS

1

Date: 11.11.2020

Place: New Delhi

भारतीय स्टेट बैंक

State Bank of India

CORRIGENDUM

S. E. RAILWAY TENDER

-Tender Notice No. E-DRM-Engg-ADRA-86-94-20, Dated: 10.11.2020.

Authorized Officer, State Bank of India SARB-II, Karol Bagh, New Delhi (Branch Code 51521)

Shakumbhri Pulp & Paper Mills Limited								
CIN:U21012UP1986PLC007671								
Read, Office: 4.5 KM., BHOPA ROAD, MUZAFFARNAGAR, 251001, LITTAR PRADE	CH.							

Email: shakumbhripaper@gmail.com | Website: www.shakumbhripulp.com | Contact No: 9548493030 JNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED AS ON 30TH SEPTEMBER 2020

	(STANDALONE) (Rs. in Laki										
SI.		30-Sep-20	30-Sep-20	30-Jun-20	30-Sep-19	30-Sep-19	31-Mar-2020				
51. No.	Particulars	3 months	6 months	3 month	3 months	6 months	12 month				
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited				
1	Total Income from Operations	1,805.30	2,870.04	1,064.74	1,520.66	2,955.56	5.774.08				
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax & Exceptional)	19.79	.27.63	7.84	14.88	34.92	80.24				
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	19.79	27.63	7.84	14.88	34.92	80.24				
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	14.65	20.45	5.80	14.48	19.00	32.25				
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	12.21	20.18	7.97	13.13	16.15	27.89				
6	Equity Share Capital	385.50	385.50	385.50	385.50	385.50	385.50				
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-					544.99				
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) 1. Basic: 2. Diluted:	0.38 0.38	0.53 0.53	0.15 0.15	0.38 0.38	0.49 0.49	0.84				

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Result filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on website of the company 'www.shakumbhripulp.com'

The above results were reviewed and recommended by the audit committee and taken on record by the Board of Director at its meeting held or 11.11.2020 and same the has been subject to the limited review by the Company's Statutory Auditors

Shakumbhri Pulp & Paper Mills Limited

Sd/

On Behalf of the Board For Bazel International Ltd.

Sd/-

Pankaj Dawa

(Managing Director DIN:06479649

Place : Delhi

Date : 11/11/2020

Date : 11/11/2020	DIN: 06441664
Place : Muzaffarnagar	Whole Time Director
	Ayush Agarwal
	50/-

	B Regd off: D-50 E, 02 E-mail: bazelinternational € gma	FLOOR, CHA	3DL1982PLC290	AVE, NEW DEL		999159	
	Extract of Standalone Un-audited Fin	ancial Results					(Rs. In Lakhs)
Sr. No.	Particulars		Quarter Ende (Unaudited)	ed	Half Yea (Unau	r Ended dited)	Year ended (Audited)
		30/09/2020	30/06/2020	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2019	31/03/2020
1	Total Income from operations	22.19	21.70	21.45	43.89	215.77	251.19
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	14.91	16.58	(27.26)	31.49	152.66	95.63
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	14.91	16.58	(27.26)	31.49	152.66	95.63
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	10.46	12.27	(19.68)	22.73	110.19	66.32
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] (Refer Note No. 2)	10.46	12.27	(19.68)	22.73	110.19	66.32
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/-)	145.50	145.50	145.50	145.50	145.50	145.50
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						1309.01
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and	d discontinued o	perations):				
	Basic:	0.72	0.84	(1.35)	1.56	7.57	4.56
t	Diluted:	0.72	0.84	(1.35)	1.56	7.57	4.56

The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2020 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Un-audited Financial Results are available on the Company's website (www.bazelinternationalltd.com) and on BSE Limited website (www.bseindia.com)

The Company has adopted Indian Accounting Standard ("Ind AS") from 1* April 2016 and accordingly these financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Ind AS 34 "Interim Financial Reporting", presorbed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

The above results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the company in its meeting held on 11th Novemb 2020

Figures for the previous quarter/year have been re-grouped/re-arranged, wherever necessary.

Provision for Income tax has been made taking into consideration the current prevailing provisions of the law up to date. Limited review of the above results has been carried out by the Auditor

There is only one segment for the products of the company.

NEERAJ PAPER MARKETING LIMITED CIN: 174990L1995PLC066194 Regd. Office: 215-222, Agarwal Prestige Mail, PLOT NO. 2, Community Center, Along Road No. 4, Pitampura, Doith: 110034 Board: +9111 47527700 | Fax: +91 11 47527777 | E-mail: mansi@neerajpaper.com | Website: www.neerajpaper.com UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED 30TH SEP, 2020 (STANDALONE) (In Lakhs 30-Sep-20 30-Sep-20 30-Sep-19 30-Sep-19 30-Jun-20 31-Mar-20 SI. Particulars 3 months 6 months 3 months 6 months 3 months 12 months No. (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) Total Income from Operations 2892.1 4124.59 1231.49 14426.71 2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, 40.98 Exceptional and/or Extraordinary items) 3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after 14.54 -14.11 28.65 Exceptional and/or Extraordinary items) 4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 5 Total Comprehensive Income for the period 7.55 84.89 [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 6 Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown 1427.59 1342.7 1342.7 in audited balance sheet of previous year 8 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) 0.09 -0.14 0.69 , Basic 2. Diluted 0.09 0.69 Notes:

The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Half Yearly Unaudited Financial Result filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & half yearly Unaudited Financial Results are available on Stock Exchange websites (www.bseindia.com).

The above results were reviewed and recommended by the audit committee and taken on record by the Board of Director at its meeting held on 11.11.2020 and the Statutary Auditor have carried Limited Review of the same.

Neeraj Paper Marketing Limited

PARVEEN KUMAR GOEL WHOLE TIME DIRECTOR DIN: 00014638 Determinister Notice No. E-DRM-Engy ADRA-86-54-20, Date: 10.11.2020 ADRA-86-54, Description of Works and Tender Value are as a follows: (1) E-DRM-Engg-ADRA-86-20, Did 10.11.2020; Construction of RUBs Subway for simulation of manhael level 10.11.2020; Section 10.11.2020; Detween Ministripur - Mashagram (MTP-MSAE) in Bankwa - Mashagram (MTP-MSAE) action of DEN/East) Construction of RUB-Bank - Mashagram (MTP-MSAE) action of DEN/East) Construction of RUB-Bank - Mashagram Data - Midagram (ADM-MDN) section in Adra - Midagram (ADM-MDN) section in Adra - Midagram (ADM-MDN) section in Adra - Midagram-Bankwa (BCA-MASE) section in Adra Division under the jurisdiction of DeN/East/Ad-S4-50 thet. Chr.10.3007 elimination of manned level crossings Br3 at im 22/24-5 between Bankwa Birk3 at (m22/45-5 bitween Bankwa DeN/East/Ad-MASE) section in Adra Division under the jurisdiction of DeN/East/Ad-MASE) section in Adra Division under the jurisdiction of DeN/East/AdA-MASE) section in Adra Division under the jurisdiction of DeN/East/Ad-MASE) section in Adra Division under the jurisdiction of DeN/East/AdA-MASE) section in Adra Division under the jurisdiction of DeN/East/AdA-MASE) section in Adra Division under the jurisdiction of DeN/East/AdA-MASE) section in Adra Division under the jurisdiction of DeN/East/AdA-MASE) section in Adra Division under the jurisdiction of DeN/East/AdA-MASE) section in Adra Division under the jurisdiction of DeN/East DeN/East/AdA-MASE) section in Adra Division under the jurisdiction of DeN/East Division under th Removal of existing seized/corroded roken rail screw, welding of slide thairs, removal of burr, fixing of guard ail etc. in Adra division. ₹ 77,87,851.51 rail etc. in Adra division: ₹77,37,851,51 (5) E-DRM-Eng-ADR-39-0-20, Dtd. 10.11,2020: Improvement of Level Crossing with approach road under jurisdiction of Sr. DEN (Central)/Adra. ₹ 10,228,288,12; (6) E-DRM-Engg-ADRA-91-20, Dtd. 10.11.2020; improvement of Level Crossing with approach road under jurisdiction of DEN (Ess1)/Adra. ₹ 37,70,918,83; approach road under jurisdiction of DEN (Easi)/dra \leqslant 77.67.001.88 (7) E-DRM-Engg-ADRA-92-20 De1010, 2010: Improvement of Level De1010, 2010: Improvement of Level purisdiction of DEN (North)/Adra 4 10.228,268.12 (8) E-DRM-Engg-ADRA-93-20, Dtd, 10.11.2020: TBR work 1.53 Itack km & imserion of Gluid Joints-344 nos. and SEJ-53 neg. 4 S-56,6957 (9) E-DRM-Engg-ADRA-94-20, Dtd, 10.11.2020: IDR (CS + CASC) - 65 east, TTR(S) - 4 sets, TTR (FS + CS + CMSC) - 10 sets TTR(CS) - 15 sets 3 TTR (FS) - 5 sets ITR(S) - 15 sets 3 TTR (FS) - 10 sets 10.54 CMSC) - 65 east, TTR(S) - 10 sets 10.54 CMSC) - 65 east, TTR(S) - 10 sets 10.55 CMSC) - 56 sets, TTR(S) - 10 sets 10.55 CMSC) - 56 sets, TTR(S) - 10 sets 10.55 CMSC) - 56 sets, TTR(S) - 10 sets 10.55 CMSC) - 56 sets, TTR(S) - 5 sets 10.55 CMSC) - 10 sets 10.55 CMSC) - 56 sets, TTR(S) - 10 sets 10.55 CMSC) - 56 sets, TTR(S) - 10 sets 10.55 CMSC) - 10 sets 10.55 CMSC) - 10.55 CMSC) - 10 sets 10.55 CMSC) - 10

ve Indian EXPRESS

indianexpress.con

The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results for the quarter ended 30th Sep 2020 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchange website 1.e. www.bearindia.com

The detailed financial results and this extract were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meetings held on November 11, 2020. The auditors have carried out Limited Review of the financials results, as required under Regulation 33 of the SEBI (listing obligation and Disclosure requirements) Regulation 2015.

By order of the Board Capital India Finance Limited

Sd

Executive Director & CEO DIN : 07869849

CAPITALINDIA CAPITAL INDIA FINANCE LIMITED

Regd. Off : 2nd floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi - 110001 | P: 011-49546000 CIN: L74990L1994PLC128577 | Website : www.capitalindia.com | Email : secretarial@capitalindia.com Statement of Consolidated and Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2020

							RS. IN LAKINS)	
SI.			Consolidate	ed	Standalone			
	Particulars	Quarter	Ended	Half Year	Quarter Ended		Half Year	
		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	
1	Total Income	3,669.57	2,827.48	6,442.58	2,400.74	2,690.72	4,663.83	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary Items)	1,007.84	739.42	1,619.19	1,075.42	1,194.76	1,944.78	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary Items)	1,007.84	739.42	1,619.19	1,075.42	1,194.76	1,944.78	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary Items)	751.44	469.87	1,158.18	799.64	917.42	1,450.15	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	751.44	469.87	1,158.18	799.64	917.42	1,450.15	
6	Equity Share Capital (face value of the share : Rs.10 each)	7,773.43	7,773.43	7,773.43	7,773.43	7,773.43	7,773.43	
7	Earning per share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)						12.00	
	1. Basic :	0.96	0.60	1.56	1.03	1.18	1.87	
	2. Diluted :	0.95	0.59	1.54	1.02	1.16	1.84	

Notes :

Place: New Delhi Date : November 11, 2020

ate: 11th November, 2020

-	Email ID: durgeshmer	#-251, шъ-е 1-68888824, С chants@omail	CIN: L65923DL1	लोनी, नई दिल्ली- 984PLC248322,		1	
क्र. सं०	30 सितम्बर, 2020 को समाप्त रि विवरण	तमाहा एव अधे	वार्षिक के अनअं समाप्त तिमार (अनअंकेक्षित	ft	कीकृत उद्वरित समाप्त अ (अनअं	(रू० लाखाँ में) समाप्त वार्षिक (अंकेक्षित)	
		30/09/2020	30/06/2020	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2019	31/03/2020
2	संचालन से कुल आय	3.58	3.56	3.37	7.14	7.04	12.89
	अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर. विशिष्ट एवं/ अध्यवा असाधारण मदों से पूर्व)	1.03	2.30	1.38	3.33	3.25	(2.42)
3	अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) कर से पहले (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदा के बाद)	1.03	2.30	1.38	3.33	3.25	(2.42)
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	0.76	• 1.70	1.02	2.46	2.40	(3.01)
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाम/ (डानि) सामिल (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)) (संदर्भ नोट न० 2)	0.76	1.70	1.02	2.46	2.40	(3.01)
6	प्रदत्त इक्वीटी शेयर पूँजी (सममूल्य रू० 10/- प्रति शेयर्स)	280.25	267.00	267.00			
7	रिजर्व (रिवेलूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले वित्तीय वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया)		201.00	207.00	280.25	267.00	267.00 -3.41
8	प्रति शेयर आय (रू० 10/- प्रति शेयर्स) (संचालन जारी रा	यने प्रतंत्रं का	रते के मिला)		1		
100	Basic:	0.03	0.06	0.01			
1	Diluted:	0.03	0.06	0.04	0.09	0.09	(0.11)
Not	es:	0.05	0.06	0.04	0.09	0.09	(0.11)

थी ओब्सीगेसन एण्ड प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अर्नागत 30 सितम्बर, 2020 को उपरोक्त समाप्त तिमाही एवं अर्थवार्षिक के अनजंकवित उद्धरित अनजकेवित विसीय परिणामों का विस्तारित स्वरूप स्टॉक एक्सप्रेन्ज में दाखिल किया गया। अनजकंवित विसीय परिणामों का विस्तारित स्वरूप रूमनी की बेबसाइट (www.durgestimerchantsid.com) पर उपलब्ध है। बल्बनी ने 1 जरेन. 2019 से इंडियन स्टेन्डर (ज्याईएनडी एएग) वहन क्रिया हे ताया कम्प्लीज अधिनियम 2013 की पांत 133 के जतांत नियांति राय्य में उसके अंतर्गत जारी पहिल

प्रसामिक नियमन अनुसार ये वित्तीय परिणाम आईएनढी एएस 34 "अंतरिम। विसीय रिपोर्टिंग' एवं सामान्त्रया इण्डिया में स्वीकार किये जाने वाले मान्यता माप सिद्धान्ती के अनुसार तैया किये गये।

	बोर्ड की ओर से कृते दूर्गेश मरघेन्टस लिमिटेड
स्थान : नई दिल्ली तिथि :11 नवम्बर, 2020	हस्ता०/- रोहित आहुजा
	(प्रबन्ध निर्देशक)

1 1 1	Email ID: bazelinternat	बी-50ई, हितीय । 1-69999159, Cl tional@gmail.co	N: L65923DL19 om, Website: v	स्तेव, नई दिल्ली- 1 82PLC290287, www.bazelintern	ationalltd.com		Long Land			
2 5.	30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाडी एवं अर्घवार्षिक के अनअंकेक्षित वित्तीय एकीकृत उद्वरित परिणाम									
क्र. संव	विवरण		समाप्त तिमार्ह (अनअंकेक्षित)			मर्घवार्षिक केसित)	समाप्त वार्षिक (अंकेक्षित)			
11	and the second sec	30/09/2020	30/06/2020	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2019	31/03/2020			
1	संचालन से कुल आय	22.19	21.70	21.45	43.89	215.77	251.19			
2	अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर से पहले (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	14.91	16.58	(27.26)	31.49	152.66	95.63			
3	कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशिष्ट एवं/अधवा असाधारण मदों के बाद)	14.91	16.58	(27.26)	31.49	152.66	95.63			
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	10.46	12.27	(19.68)	22.73	110.19	66.32			
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाम/ (हानि) शामिल (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)) (संदर्भ नोट न॰ 2)	10.46	12.27	(19.68)	22.73	110.19	66.32			
6	प्रदत्त इक्वीटी शेयर पूँजी (सममूल्य रू० 10/- प्रति शेयर्स)	145.50	145.50	145.50	145.50	145.50	145.50			
7	रिजर्व (रिवेलूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले वित्तीय वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया)						1309.01			
8	प्रति शेयर आय (रू० 10/- प्रति शेयर्स) (संचालन जारी रख	ने एवं बंद करने	के लिए)	1100	CALCUM TO		1 1 1 1 1 1 1			
-	मूल:	0.72	0.84	(1.35)	1.56	7.57	4.56			
	तरल:	0.72	0.84	(1.35)	1.56	7.57	4.56			

सेबी (सूबी ओब्लीगेसन एण्ड प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अर्न्तगत 30 सितम्बर, 2020 को उपरोक्त समाप्त तिमाही एवं अर्घवार्षिक के अनअंकेक्षित उद्धरित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विस्तारित स्वरूप स्टॉक एक्सचेन्ज में दाखिल किया गया। अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विस्तारि स्वरूप कम्पनी की वेबसाइट (www.bazelinternationalitd.com) एवं बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।

कम्पनी ने 1 अप्रैल, 2019 से इडियन स्टेन्डर्ड ("आईएनडी एएस") ग्रहण किया है तथा कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित साथ में उसके अंतर्गत जारी पठित प्रसांगिक नियमन अनुसार ये वित्तीय परिणाम आईएनडी एएस 34 'अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिन' एवं सामान्तया इण्डिया में स्वीकार किये जाने वाले मान्यता माप सिदान्तों के अनुसार तैयार किये गये।

उपरोक्त परिणामों की आडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई एवं निर्देशक मंडल द्वारा उनकी सम्बन्धित 11नवम्बर, 2020 की बैठक में अनुमोदित किये गये। पिछले तिमाही/वार्षिक के आकड़े जहाँ पर आवश्यक थे फिर से वर्गीकृत/व्यवस्थित किये गये हैं।

आयकर के प्रावधान का कानून के मौजूदा प्रचलित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लेखा परीक्षकों द्वारा परिणमों की सीमित समीक्षा की गई। कम्पनी के उत्पादों कि लिए केवल एक खण्ड है।

कृते	बेजल	बोर्ड की इन्टरनेशनल	
			स्ता०/-

(प्रबन्ध निदेशक)

DIN-06479640

स्थान		नई	दिल	গী	
নিথি	:1	1 न	तम्बर	2020	

, कार्या: 4 कि.मी. स्टोन, व तहसील बहादुरा CIN: 5	वैली बायों	रेक किसी	रेत	
TRADE TO	प छत्रा सह, ग्र	ाम खारका	मुसलमान, पी.आ.	टेबाहेरी,
तहसील बहादुर CIN:L01122HD10	द, जिला झज्जा	, हरियाणा-	124507,	
anominu h	94PLC03302	9. 2 m	01-0811241542	
CIN:L01122HR19 genomicvalley@gmail.	com: http://	o, sen. v	71-7611341342	
genomicvalley@gmail. सितम्बर, 2020 को समाप्त हि	com; nttp://	www.genc	micvalley.con	ग पर भिल
an analog 16			ननेकेक्षित स्टेडएलॉन	न वितीय
	परिणामी का र	सार		100 Color 100
				राणि ठ. मे)
वियरण	-		पूर्व वर्ष में समाज	0.00 0, 4)

			210	DEMONING & MOIN	93
-	परिवालनों से कुल आप	30 सितम्बर, 20 (अनेकेक्षित)	30 जून, 20 (अनकश्चित)	30 मित. 19 (अनेकेक्षित)	31 मार्च, 20 अक्रेडिजन
	die sie fen	669690	277600	1935304	8606499
	अवधि के लिए बुद लाप/(हानि) (कर, असाधारण एवं/अववा विशिष्ट मदी से पूर्व)	-263696	-1354808	221053	2057311
	कर से पूर्व अवीध के लिए तुद्ध लाम/(हानि) (असाधारण एवं/अववा विक्रिप पाने के	-263696	-1354808	221053	2057311
	कर के बाद अयोध के लिए तुद्ध लाम/(हानि) (असाधारण एवं/अयवा विजिन्न मले के जाव)	-263696	-1354808	221053	2859927
1	अवधि के लिए कुल व्यापक आप (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से जासिक)	-263696	-1354808	221053	2859927
1	इक्विटी सेपर पूंची (3054500 इक्विटी सेपर रु. 10/- प्रति)	3054500	3054500	3054500	3054500
I	आरधित (पुनर्मूच्यांकन आरधितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्य वर्ष के तुसन पत्र में दर्शाई गई है	210	-		19925159
1	आय प्रति शेयर	-	-		-
1	क) मूल	-0.09	-0.44	0.07	0.94
1	ख) तरस	-0.09	-0.44	0.07	0.94

2-11

क्रम स

वित्तीय परिणामों के उपरोक्त सारांश की ऑडिट कमिटी के सदस्यों द्वारा समीक्षा की गई तथा 11 नवम्बर, 2020 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये।

उपरोक्त रेंबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टीक एक्सचेंज में दाखिल तिमाही तथा वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही तथा तिथि तक वर्ष के वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट

(www.bscindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.genomicvalley.com) पर उपलब्ध है। जेनोमिक बैली बायोटेक लि के लिये तथा उसकी आंग

1771 11 10 10 10						हस्ता./-
					योगेः	श अग्रवाल
स्थानः हरियाणा					(प्रबंध	निदेशक)
तिथिः 11 नवम्बर, 2020					DIN:0	1165288
τ	गताः जी-74,	पष्कर ।	एन्क्लेव.	पश्चिम वि	वेहार, नई दिल्ल	A-110063

SRI AMARNATH FINANCE LIMITED

Regd. Office: 4883-4884, Second Floor, Main Road, Kucha Ustad Dag, Chandni Chowk Delhi-110006 Phone No.: 011-23953204 Email: amamath01 finance @ gmail.com, CIN No. L74899DL1985PLC020194

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30" SEPTEMBER, 2020 (Re in Lakhe

SI. No	Particulars	Quarter Ended 30.09.2020 (Unaudited)	Six Months Ended 30.09.2020 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2019 (Unaudited)
1	Total income from operations (net)	104.92	253.92	119.13
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	83.96	200.92	90.90
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	83.96	200.92	90.90
4	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	69.49	153.49	67.50
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	69.49	153.49	67.50
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]**	69.49	153.49	67.50
7	Equity Share Capital	998.00	998.00	998.00
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	(As on 31.03.2020)		
9	Earnings Per Share (Face value of Rs.10 each) (for continuing and discontinued operations)			
	- Basic (not annualized)*	0.70	1.54	0.68
	- Diluted (not annualized)*	0.70	1.54	0.68

NOTES

Date 11.11.2020

Place: Delhi

he above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on November 11, 2020.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formal of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com and on company's website www.sriamamathfinance.in

**Total comprehensive income for the period comprises only Net Profit for the period after tax as Ind AS is not applicable to the company, for the FY, 2020-21 and hence other comprehensive income is not being furnished For Sri Amarnath Finance Limite

Rakesh Kapoor Managing Director DIN:00216016

तिथिः

🎧 भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

utting a selfcaret, success allowed a

एस ए.सार.मी - 11 करील कार नई दिल्ली (साला कोंड 51521)

रादि-पत्र

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be

held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies or

entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

एलसीआरढी डिवीजन/नई दिल्ली

फोन: 011-40733980, 40733978

दि फेंडरल टॉवर्स, ऊपरी मूतल, 2/2, वेस्ट पटेल नगर,नई दिल्ली-08

any manner whatsoever.

11.51.207

फार्म में. INC-26 कंपनी (निजमन) नियम, 2014 के नियम-3 किंप्रमुटा के किंद्र सरकर, वेशीय निवेषक, उत्तारी बेल, नई दिल्ही के समज

र्कानी अधिनियम, 2013 की वारा 15 की उप-वारा (4) और कंपनी (निगमन) निवम, 2014 के निवम 30 के उप-निवम(5) के क्लॉज (1) के माम्मों में

अस् विरासन एको युक्तम प्राइनेट विग्नमिटेड (CIN: U15139DL2008PTC178500) पंजीवत कार्यालय 2699/4, बीजन पुरा, कटेल बाग, नई दिल्ली-110005

अंक हलानियालन में परिवर्तन की पुष्टि के सि सरकार कोन्दी अप्रिंतियम, 2013 की पांच 13 वे अधिनगर जात क्षेत्रीय निदेशक के साला आवेदन का प्रस्तान दिया है जिलाक उद्देशय कोनी की फरीयद कार्यालय ''राष्ट्रीय राज्यपानी क्षेत्र क्षेत्र दिल्हीं'' से ''हरियाना राज्य'' स्वानांतरित क राष्ट्रन क्लाना है।

करते हुए एक सामयपत देना होगा और शिवायत का की एक बॉमी आवंदक कान्त्री के उसर दिर मंत्रीवर् पर्ने पर मेजनी होती।

उनके दिन और उनकी सरक में विरासत एम्रो पूत्र प्राइवेट लिमिटेव

शिविः 12.11.2020 विशिवास जुप्सा (विदेशक) त्यानः नई दिल्ली DIN: 06754872

फेडरल बेंक आपका सम्पूर्ण वैकिंग भागीदार पंजी. कार्यालयः अ ये. केरल

अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूवना प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तया प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों के विक्रय हेतू विक्रय सूचना।

एतद्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि फेडरल बैंक लि. (प्रतिभूति लेनदार) के पास नीचे लिखित बंधक/प्रभारित अचल सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा 28.02.2020 को फेडरल बैंक लि. (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया या उसे (1) त्री अरविन्द दास पुत्र त्री प्रसन्ना कुमार दास (2) श्रीमती प्रतिमा दास पत्नी श्री प्रसन्ना कुमार दास (3) श्री प्रसन्न कुमार दास पुत्र श्री नन्द पूर्णा दास सभी निवासी ई-10/8, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 से रु. 6,91,92,748/- (रुपये छः करोड़ इक्यानवे लाख बानवे हजार सात सौ अड़तालीस मात्र) तथा भावी व्याज, लागतों एवं अन्य प्रभारों जो बिक्री की उपर्युक्त तिथि को द फेडरल बैंक लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) का बकाया है, से वसूली हेतु ''जो है वहीं है'', ''जो है यही है'' तया ''जो कुछ भी वहीं है'' के आधार पर 02.12.2020 को बिक्री की जायेगी। आर्राक्षत मूल्य रु. 7,20,00,000/- (रुपये सात करोड़ बीस लाख मात्र) तथा जमा धरोहर राशि रु. 72,00,000/- (रुपये बहत्तर लाख मात्र) होगी। इस प्रकार संविदाप आरक्षित मुल्य से ऊपर जमा की जानी हैं।

सम्पत्ति सं. ई-10/8 का सम्पूर्ण भाग, कार पार्किंग सहित सम्पूर्ण भूतल, फ्रंट लॉन, रियर कोर्टयाई, टॉप टेरेस के पिछले भाग पर कॉमन ओवरहेड वाटर स्टोरेज टैंक के नीचे एक टॉयलेट सहित एक सर्वेट क्यार्टर तथा प्लॉट सं. ई-10/8 में 10 प्रतिशत अविभाजित अविभाज्य अधिकार सहित सम्प्रण वेसमेंट एवं 30 प्रतिशत अविभावित अविभाजनीय इम्पार्टिवस स्वामित्व, माप 450 वर्ग गज, वसन्त विहार, दिस्सी-110057, सीमाएं : पूर्व : प्लॉट सं. 7, पश्चिम : प्लॉट सं. 9, उत्तर : 15 फोट चौढ़ो सविंस रोड, दक्षिण : गली नं. ई-10.

सम्पत्ति की बिक्री फेडरल बैंक के अधिकृत प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदार मैससे 4 क्लोजर के माध्यम से इं-नीलामी द्वारा की जायेगी। ई-संविदा प्रपत्र, उद्घोषणा, ऑनलाइ-नीलामी थिकी के नियम एवं शतों वाले इं-नीलामी निविदा टाउनयेज रोजमार? https://www.bankauctions in पर उपलब्ध है। सम्भवित संविताकप्र हे..सेलापी प ऑनलाइन प्रशिक्षण मैसर्स बक्लोजर, हैदराबाद, हेल्पलाइन नं, एवं इं-मेल आईंडी 0814200062/65/66 तथा ई-मेल : info@bankauctions.in तथा विकास कुमार 08142000809, 08076427383 एवं ई-मेल : vikas@bankauctions.in से प्राप्त कर सकते है। निविदा दस्तावेज में प्रदन्त निर्धारित प्रारूप में संविदाएँ पोटंस https://www.bankauctions.ir के माध्यम से ''ऑनलाइन'' जमा की जानी हैं। अन्य प्रारूप में जमा की गयी संविदाएँ विचारणी नहीं होंगी। ईएमडी बैंक खाता 21470051030003, आईएफएससी FDRL0002147 में हिमाण ड्राफ्ट, इंएमटी/एनइंएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा की जानी हैं। जमा की जाने वाली इंएमडी सम्पत्ति के आरक्षित मूल्य का 10% जमा की जानी है जिसे संविदा स्वीकार न होने की स्थिति में वाप कर दिया जायेगा। इंएमडी सहित संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय 01.12.2020 क 5.00 बजे अप. तक है। कधित तिथि तथा समय के प्रत्यात जमा की गयी कोई संविता स्त्रीकार उर्द की जायेगी।

सम्पत्ति का विवरण, सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि, विक्रय निर्देष्ठित करने वाले नियम एवं शतेँ शास्त प्रबंधक, शाखा वेस्टेंड कॉलोनी, 1-4, कन्वीनिएंट शॉपिंग सेंटर, वेस्टेंड, नई दिल्ली-110021 तय एनडीएल/एलसीआरडी डिवीजन, 2/2, फेडरल टॉवर्स, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 से 01.12.2020 तक दूसरे एवं चौथे शनिवार को छोड़कर किसी भी कार्यदिव 12 बजे अप. से 4 बजे अप. के बीच प्राप्त की जा सकती है।

सम्पत्ति को नीलामी से सम्बन्धित विस्तुत नियम एवं शतैँ शाखा परिसर, शाखा वेस्टेंड कॉलोनी, 1-4 कन्वीनिएंट शॉपिंग सेंटर, चेस्टेंड, नई दिल्ली-110021 तथा एनडीएल/एलसीआरडी डिश्रीजन, 2/2 फेडरल टॉबर्स, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, चेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 पर प्रदर्शित की जायेंगी इच्छुक व्यक्ति शाखा प्रमुख, वेस्टेंड कॉलोनी, फेडरल बैंक से मोबाइल नं. 9447827722 तथा लसीआरडी डिवीजन, फेडरल बैंक से मोबाइल ने.: 9818646777, 9971564047, 858782250 ग्या कार्यालय सं. 011-40733980,40733978,40733981 से सम्पर्क कर सकते हैं। बेकी के

//www.bankauctions.in	2. https://www.federalbank.co.in				
2 11 2020	कते दि फेडरल बैंक लि., सहायक उपाध्यक				